

जब आपको पानी उबालने के संबंध में सूचना जारी की जाती है तो क्या करें- खाद्य समस्याएं



पानी उबालने के संबंध में सूचना तब जारी की जाती है जब पीने वाले पानी की सप्लाई में हानिकारक बैक्टीरिया या बीमारी पैदा करने वाले जीव चिंता का विषय होते हैं। सभी खाद्य संस्थानों को पानी उबालने के संबंध में सूचना के दौरान निम्नलिखित काम करने चाहिए।

1 काम करना बंद करें

- इसका मतलब है: सूचना हटाए जाने तक सभी खाद्य सेवा को बंद करें
- इनमें शामिल हैं: खाना पकाना, खाने की तैयारी और धोना



सारे भोजन की तैयारी को रोकें




2 पानी उबालने के संबंध में सूचना के दौरान

- हाथ धोना
 - 20 सेकेंड तक अपने हाथों को साबुन और गर्म पानी से धोएं
 - साफ पेपर टॉवल्स के साथ हाथ सुखाएं
 - धोने के बाद, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें
- धोए हुए सारे ताजा उत्पाद को फेंक दें
- कोई भी बीमारियों की सूचना सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को दें: **206-296-4774**




धोए हुए उत्पाद को फेंक दें



3 पानी उबालने के संबंध में सूचना को हटाए जाने के बाद

- 5 मिनटों के लिए पानी की सारी लाइनों को फ्लश करें
- खाद्य के संपर्क में आई सतहों और सिंक को धोएं, साफ करें, और सैनिटाइज करें
- बर्फ मेकर्स को खाली करें और फ्लश करें, अंदर से साफ करें और सैनिटाइज करें, और बर्फ के पहले बैच को फेंक दें
- पेय मशीनों को खाली करें और पानी की लाइनों को फ्लश करें
- डिशवॉशर्स को कम से कम दो साइकल्स के लिए खाली चलाएं
- सारे बर्तनों, कपों और प्लेटों को धोएं, साफ करें, और सैनिटाइज करें

के लिए पानी की लाइनों को फ्लश करें



बर्फ मेकर्स को फ्लश करें और साफ करें




डिशवॉशर्स को दो बार चलाएं



4 फिर से खोलना

जांच/अनुमोदन को फिर से खोलने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) से संपर्क करें: **206-263-9566**



पानी उबालने के संबंध में सूचना और खाद्य संस्थानों के लिए विस्तृत निर्देश

सभी खाद्य संस्थानों को पानी उबालने के संबंध में सूचना के दौरान निम्नलिखित काम करने चाहिए।
यदि प्रक्रियाओं के बारे में आपके कोई सवाल हैं, तो **206-263-9566** पर सार्वजनिक स्वास्थ्य से संपर्क करें।

1 काम करना बंद करें

- पानी उबालने के संबंध में सूचना तब जारी की जाती है जब हानिकारक हो सकने वाले बैक्टीरिया या अन्य जीव पानी की सप्लाई में पाए जाते हैं।
- आपको सूचना हटाए जाने तक अपने सभी खाद्य सेवा संबंधी कार्यों को रोकने की आवश्यकता होती है।
- किसी भी खाद्य सेवा संचालन को तब तक फिर से शुरू न करें जब तक कि जल जिला और स्वास्थ्य विभाग (Department of Health) यह निर्धारित न कर लें कि पानी सुरक्षित पेयजल मानकों को पूरा करता है।

2 पानी उबालने के संबंध में सूचना के दौरान

- पीने के पानी के सभी फव्वारों को बंद कर दें और सारी बर्फ फेंक दें।
- सूचना से पहले धोए गए किसी भी उत्पाद (फल, सब्जियां और जड़ी बूटियां) को फेंक देना चाहिए।
- 20 सेकेंड तक अपने हाथों को साबुन और गर्म पानी से धोएं। साफ पेपर टॉवल्स के साथ हाथ सुखाएं। हैंड सैनिटाइज़र के उपयोग की पालना करें। खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों को नंगे हाथों से छूने की अनुमति न दें।
- एक अधिक सीमित मेनू के साथ काम करने का कोई विकल्प हो सकता है, कृपया यह देखने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से संपर्क करें कि क्या आपका संस्थान योग्य है।

3 पानी उबालने के संबंध में सूचना को हटाए जाने के बाद

- अपने संस्थान की सारी पानी की लाइनों को फ्लश करें। पांच मिनटों तक पानी को पूरी तरह से चलाएं। फ्लश करना याद रखें: नल, बर्फ मेकर्स, पेय मशीनें, डिशवॉशर्स, और अन्य सभी प्रणालियाँ जो चलते पानी का उपयोग करती हैं।
- अपने बर्फ मेकर को धोएं और सैनिटाइज़ करें। बर्फ के पहले बैच को फेंक दें।
- नल के पानी का उपयोग करने वाली पेय मशीनों को खाली किया जाना और फ्लश किया जाना चाहिए।
- डिशवॉशर्स को कम से कम दो साइकल्स के लिए खाली चलाएं। या तो उचित जांच स्ट्रिप्स (क्लोरीन के लिए 50 - 100 ppm) वाले रासायनिक सैनिटाइज़र की जांच करके या गेज (180° F) पर पानी के तापमान की जांच करके यह सुनिश्चित करें कि आपका डिशवॉशर सही ढंग से काम कर रहा है।
- बर्तनों, कपों और प्लेटों को फिर से धोया, साफ किया और सैनिटाइज़ किया जाना चाहिए।
- चलते पानी के डिपर कुओं को फ्लश किया जाना चाहिए। कुओं को वापस उपयोग में लाने से पहले सूखाया, धोया, साफ किया, और सैनिटाइज़ किया जाना चाहिए।

4 फिर से खोलना

आपके द्वारा खोल सकने से पहले, **206-263-9566** पर सार्वजनिक स्वास्थ्य से संपर्क करें।

